



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय, मुंबई

प्रेस विज्ञप्ति

विषय : एटीएस कॉम्प्लेक्स, मुंबई में एयरोड्रोम लेसेंसिंग तथा डीजीसीए निगरानी निरीक्षण पर 02 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।

मुंबई: 23.10.2019

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पश्चिमी क्षेत्र के प्रचालन विभाग द्वारा एयरोड्रोम लेसेंसिंग के विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। श्री ग. चन्द्रमोली, क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक द्वारा इस कार्यशाला का उद्घाटन एटीएस कॉम्प्लेक्स, मुंबई में किया गया। इस कार्यशाला में कॉर्पोरेट मुख्यालय के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा अनेक संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया।

प्रथम दिन की कार्यशाला का संचालन महाप्रबंधक (ए एल) तथा संयुक्त महाप्रबंधक (ए एल) द्वारा किया गया और इसमें कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया, जैसे: एयरोड्रोम लाइसेंसिंग के लिए नियामक फ्रेमवर्क, एरोड्रोम मैनुअल की तैयारी करना एवं विमानपत्तन के प्रबंधन में बदलाव, अवसंरचना एवं सुरक्षा के मूल्यांकन की प्रक्रिया पर केंद्रित थी।

दूसरे दिन की कार्यशाला के मुख्य वक्ता संयुक्त महाप्रबंधक (ए एल) ने एक डीजीसीए चेकलिस्ट विश्लेषण और हवाई अड्डों पर की गई तैयारी और अन्य कमियों को दूर करने के लिए एक सूचनात्मक सत्र का आयोजन किया। विमानन सुरक्षा निदेशालय के प्रतिनिधि द्वारा हवाई अड्डों के लिए एसएमएस मैनुअल की तैयारी और रखरखाव के विषय पर चर्चा के बाद सत्र का समापन हुआ। महाप्रबंधक (एएल) ने एयरपोर्ट लाइसेंस के रखरखाव में विमानपत्तनों की जवाबदारी पर व्यक्तव्य दिया। इस सत्र के साथ कार्यशाला का समापन हुआ।



**कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभाग, पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय, मुंबई द्वारा जारी
जानकारी के लिए संपर्क करें**

प्रबंधक (सी. सी.) - 022-20880631, 29217404

प्रेस विज्ञप्ति सं. 20 / 2019-2020